



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2006/फाल्गुन 12, 1927

No. 78]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2006/PHALGUNA 12, 1927

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 129(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज,

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक बहुउद्देशीय विद्यालय और

उच्च विद्यालय (समूह "क" और समूह "ख") भर्ती नियम, 1980 का और संशोधन

करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक बहुउद्देशीय विद्यालय

और उच्च विद्यालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम,

2006 है.

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

2. भारतीय रेल डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक बहुउद्देशीय विद्यालय और उच्च विद्यालय (समूह "क" और

समूह "ख" पद) भर्ती संशोधन नियम, 1980 की अनुसूची में क्रम संख्या 4 और उससे

संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए बरों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
4. प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका	*48 (2004)	रेल सेवा "ख" राजपत्रित	7500-250-12000/-रु.	चयन	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं #
				# टिप्पण: 1. केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जाएगी.		
				टिप्पण: 2. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी. न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है.		

\* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोद्घत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.
8	9	10
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समतुल्य	आयु-नहीं	दो वर्ष
(ii) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से अध्यापन या शिक्षा में डिग्री या समतुल्य	शैक्षिक अर्हताएं-हां	
(iii) किसी मान्यता-प्राप्त उच्च विद्यालय या शैक्षिक संस्था में प्रशासन का 3 वर्ष का अनुभव जिसमें 2 वर्ष अध्यापन का अनुभव भी सम्मिलित है \$		
\$ टिप्पण: 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है.		
टिप्पण: 2. अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है/हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों का भरण के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है.		

<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>11</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा.</p>
<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की रक्षा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा.</p>	<p>12</p>	<p>I. प्रोन्नति-6500-10500/-रु. के वेतनमान में ऐसे स्नातकोत्तर अध्यापक या प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापिका जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् 3 वर्ष नियमित सेवा की हो.</p> <p>II. प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका का पद नियमित आधार पर धारण करने वाले व्यक्तियों की 7500-12000/-रु. के वेतनमान में प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका के उन्नयित पद उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो वह इस नियम के आरम्भ की तारीख से पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा. यदि वह उन्नयित वेतनमान में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं निर्धारित किया जाता है तो वह 6500-10500/-रु. के पुनरीक्षित वेतनमान बना रहेगा और उसके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा.</p> <p>टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिचीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है. प्रतिनियुक्ति :- केंद्रीय सरकार के उच्च विद्यालयों में सदृश पदों पर नियमित रूप से काम करने वाले अधिकारी पोषक प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे.</p>
<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना</p>	<p>13</p>	<p>समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति और पुष्टि के लिए, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>संबंधित ज़ोनल रेलवे के अधिकारियों जिसमें मुख्य कार्मिक अधिकारी सहित तीन विभागाध्यक्ष होंगे जिनका नाम निर्देशन संबंधित रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा किया जाएगा. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन में कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो अनुसूचित जाति या जनजाति का ऐसे चौथे अधिकारी का जो उपविभागाध्यक्ष (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) से निम्न का न हो, नाम निर्देशित किया जाएगा.</p>
<p>भर्ती करने में कितनी परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.</p>	<p>14</p>	<p>सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है.</p>

-11-	-12-	-13-	-14-
	<p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		

[सं. 96/ई(जी आर)आई/19/1]

जसवन्त राय, कार्यकारी निदेशक, स्था. (राज.सव.)  
रेलवे बोर्ड

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 (i) तारीख 29 मार्च, 1980 में, सा.का.नि. संख्या 374, तारीख 17 मार्च, 1980, द्वारा प्रकाशित किए गए थे

और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 850, तारीख 17 सितम्बर, 1982 और सा.का.नि. 380 तारीख 28 मार्च, 1983 द्वारा संशोधित किए गए।

**MINISTRY OF RAILWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th February, 2006

**G. S. R. 129(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways Degree College, Intermediate College, Higher Secondary School, Higher Secondary Multipurpose School and High School (Group 'A' & Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1980, namely:

1. (i) These rules may be called the Indian Railways Degree College, Intermediate College, Higher Secondary School, Higher Secondary Multipurpose School and High School (Group 'A' & Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2006.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Railways Degree College, Intermediate College, Higher Secondary School, Higher Secondary Multipurpose School and High School (Group 'A' & Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1980, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

604 GF/06-2

## SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Principal or Head-master or Head-mistress	*48 (2004) * Subject to variation dependent on workload	Railway Service Group 'B', Gazetted	Rs. 7500-250-12000	Selection	Not applicable	<p>Not exceeding 40 years.</p> <p>Note 1: Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government.</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>(i) Master's Degree from a recognized University or equivalent;</p> <p>(ii) Bachelors Degree in teaching or education from a recognized University or equivalent;</p> <p>(iii) Three years' experience of administration in a recognized High School or education Institution including two years experience in teaching.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and % of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
Age. No. Educational Qualification. Yes.	Two years	By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	<p><b>I. Promotion:</b> Post Graduate Teacher or Headmaster or Headmistress in the scale of Rs. 6500-10500 with three years regular service in the grade after appointment thereto on a regular basis.</p> <p><b>II.</b> The suitability of the regular holder of the post of Principal or Headmaster or Headmistress shall be assessed by the Departmental Promotion Committee to the upgraded post of Principal or Headmaster or Headmistress in the scale of pay of Rs. 7500-12000. If assessed suitable, he shall be deemed to have been appointed to the post on the date of commencement of these rules. If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay he shall continue to be in the revised scale of pay of Rs. 6500-10500 and his case shall be reviewed every year.</p> <p>Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:</p> <p>Officers of the Zonal Railways concerned consisting of three Head of the Departments including Chief Personnel Officer to be nominated by General Manager of Railway concerned. If none of the officers constituting the Departmental Promotion Committee belongs to either Scheduled Caste or Scheduled Tribes, fourth officer belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not lower than the Deputy Head of the Department (Junior Administrative Grade) may be nominated.</p>	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

9	10	11	12	13	14
			<p>service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.</p> <p><u>Deputation:</u> Officers holding analogous posts on regular basis in High Schools of Central Government.</p> <p>The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation</p>		



9	10	11	12	13	14
			shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).		

११

[No. 96/E(GR) I/19/1]

JASWANT RAI, Executive Director Establishment  
(Gazetted Cadre) Railway Board

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Part II, section 3(i), dated the 29<sup>th</sup> March 1980 vide number GSR 374, dated the 17<sup>th</sup> March, 1980 and subsequently amended vide numbers GSR 850, dated the 17<sup>th</sup> September, 1982 and GSR 380, dated the 28<sup>th</sup> March, 1983.

G-46/84-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064  
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.